

प्राचार्य/संस्थाओं के प्रमुख,

सीबीएसई से संबद्ध स्कूल।

**विषय:** कक्षा 12 के परीक्षा 2021 के संबंध में प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने तथा स्कूल आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया के बदलाव के संबंध में

यह प्रपत्र कक्षा 12 के स्कूल आधारित मूल्यांकन ( आंतरिक मूल्यांकन/प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट) के आयोजन के विषय में सीबीएसई के पत्र संख्या CBSE/COORD/2021 दिनांक 11.02.2021 द्वारा जारी किए गए तथा लिंक [www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//conduct%20of%20practical-2020.pdf](http://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//conduct%20of%20practical-2020.pdf) पर उपलब्ध प्रपत्र के संबंध में है। ऐसा संज्ञान में आया है कि महामारी के चलते कुछ स्कूल अभी तक कई विषयों में स्कूल आधारित मूल्यांकन पूरा नहीं कर पाए हैं। इस कारण से जिन स्कूलों के प्रैक्टिकल/ आंतरिक-मूल्यांकन अभी लंबित है। उन्हें इस मूल्यांकन को केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित करने तथा दिए गए लिंक पर 28/06/2021 तक अंक अपलोड करने की नीचे दी गई हिदायतों के पालन के साथ अनुमति दी जाती है:

- 1 विषयों की सूची, प्रैक्टिकल/प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन तथा थ्योरी के अंकों का विवरण, परीक्षाओं का समय अंतराल तथा बाहरी परीक्षकों के तैनात किए जाने की स्थिति की जानकारी “**Framework and significant guidelines in the context of secondary and Senior school certificate examination 2020-21**” जो की लिंक [www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/letter%20for%20schools%20framework-merged.pdf](http://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/letter%20for%20schools%20framework-merged.pdf) पर उपलब्ध है, के पृष्ठ संख्या 167 पर दी गई है।
- 2 जिन विषयों में बाहरी परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है, वहां संबंधित स्कूल के उस विषय का शिक्षक ही पाठ्यक्रम में दी गई हिदायतों के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन ऑनलाइन मोड में करेगा तथा बोर्ड द्वारा दिए गए लिंक पर अंको को अपलोड करेगा।
- 3 जिन विषयों में बाहरी परीक्षक नियुक्त किए गए हैं वहां बाहरी परीक्षक आंतरिक परीक्षक से सलाह मशवरा करके प्रैक्टिकल अथवा प्रोजेक्ट मूल्यांकन की तिथियों को तय करेगा और ऑनलाइन मोड से ही प्रश्नोत्तरी का आयोजन करेगा।
- 4 आंतरिक परीक्षक, छात्रों के साथ, परीक्षा की तिथि को समय से काफी पहले साझा करेगा तथा परीक्षा के दिन ऑनलाइन मीटिंग का लिंक बाहरी परीक्षकों तथा छात्रों के साथ साझा करेगा। मूल्यांकन का आयोजन पाठ्यक्रम में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- 5 परीक्षा के पूरा होने के तुरंत पश्चात बोर्ड द्वारा दिए गए लिंक पर अंकों को अपलोड कर दिया जाएगा। अंको को अपलोड करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि सही अंक ही अपलोड किए गए हैं क्योंकि अंकों के एक बार लोड होने के पश्चात किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों ही परीक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए की दिए गए अंक अधिकतम अंको की तरफ ना जाए जो कि छात्रों के भिन्न-भिन्न शैक्षणिक स्तर के होते हुए संभव नहीं है।
- 6 आंतरिक परीक्षक प्रत्येक छात्र का, स्कूल के रिकॉर्ड के लिए, प्रश्नोत्तरी के दौरान ऑन-स्क्रीन छायाचित्र लेगा। इस छायाचित्र में आंतरिक परीक्षक, बाह्य परीक्षक तथा छात्र की तस्वीर सम्मिलित होगी अथवा पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी रखी जा सकती है। महामारी के चलते ग्रुप फोटो को अपलोड करने की पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है।
- 7 स्कूल आधारित मूल्यांकन को आयोजित करते समय स्कूल सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

- 8 बाहरी परीक्षकों के तौर पर नियुक्त किए गए सभी शिक्षक अपनी ड्यूटी को स्वीकार करेंगे तथा बढ़ाई गई समय सीमा में दिए गए कार्य को पूरा करेंगे।
- 9 अंक अपलोड करने की तिथि जो कि 28/06/2021 है, को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए स्कूलों को हिदायत दी जाती है कि मूल्यांकन से संबंधित सभी कार्य 28/06/2021 से पहले पूरे कर लिए जाएं तथा ध्यान पूर्वक अंकों को अपलोड कर दिया जाए।
- 10 2021 के कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए प्राइवेट अभ्यर्थियों से संबंधित प्रैक्टिकल/ प्रोजेक्ट/आंतरिक मूल्यांकन की पॉलिसी को जल्द ही घोषित किया जाएगा।
- 11 दिनांक 11/02/2021 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में घोषित की गई अन्य शर्तें यथा-पूर्वक रहेंगी।

-हस्ताक्षरित-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक